



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4625]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2018/अग्रहायण 7, 1940

No. 4625]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2018/AGRAHAYANA 7, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2018

का.आ. 5846(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, मेघालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, मेघालय कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

1. श्री टोनी ट्रेवर्ट सी मरक, - अध्यक्ष
भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त),
ग्राम-उम्सावली, डा. मवडियांगडियांग,
शिलांग – 793012, मेघालय
2. डॉ० हांबक जोन्स सियामलेय, - सदस्य
प्रोफेसर,
भूगोल विभाग,
नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी,
शिलांग – 793022, मेघालय
3. मुख्य वन संरक्षक, - सदस्य-सचिव
सामाजिक वानिकी और पर्यावरण,
मेघालय सरकार।

2. प्राधिकरण, मेघालय के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
3. प्राधिकरण, मेघालय ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।
4. प्राधिकरण, मेघालय, मेघालय राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों के आधार पर अपना विनिश्चय देगा।
5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, मेघालय की सहायता करने के लिए मेघालय राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस.ई.ए.सी., मेघालय कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | श्री नबब्रत भट्टाचारजी,
“मेघारन” देपने रोड़,
केचस ट्रेस, डा. लबन,
शिलांग – 793004, मेघालय | - अध्यक्ष ; |
| 2. | श्री शखर के. संगमा,
संयुक्त निदेशक, मृदा और जल संरक्षण (सेवानिवृत्त),
आर.सी. रोड़, तुरा,
वेस्ट गारो हिल्स – 794002, मेघालय | - सदस्य ; |
| 3. | श्री टायलर एच.एस. बोन्ने,
भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त),
सोहोंग गांव (मवटप),
ईस्ट खाशी हिल्स जिला – 793115, मेघालय | - सदस्य ; |
| 4. | श्री पुहरण एम. संगमा,
म.सं. 93/2, मदन लबन, नेपाली स्कूल के निकट,
शिलांग – 793004, मेघालय | - सदस्य ; |
| 5. | डॉ० डोंकुपर स्याम,
प्रोफेसर,
जैव रसायन विभाग, नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी,
शिलांग – 793022, मेघालय | - सदस्य ; |
| 6. | श्री फेंगेन सिंह गिरी लेंगडो,
खाशी नेशनल डोरबर हाल के सामने,
मवखार मुख्य मार्ग,
शिलांग – 793001, मेघालय | - सदस्य ; |
| 7. | उप वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय,
(सामाजिक वानिकी और पर्यावरण), मेघालय सरकार। | - सचिव। |
6. एस.ई.ए.सी., मेघालय के अध्यक्ष और सदस्य, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
 7. एस.ई.ए.सी., मेघालय ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।
 8. एस.ई.ए.सी., मेघालय सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. मेघालय राज्य सरकार, प्राधिकरण मेघालय और एस.ई.ए.सी., मेघालय के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सचिवालय, सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी वैधानिक कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगा।

10. प्राधिकरण, मेघालय के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस.ई.ए.सी., मेघालय के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता, मेघालय राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013/9/2007-आई.ए.II (I)]

जिगमेट टकपा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2018

S.O. 5846(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Meghalaya (hereinafter referred to as the Authority, Meghalaya) comprising of the following Members, namely:—

1. Shri Tony Trabert C. Marak, -Chairman;
Indian Forest Service, (Retired),
Village-Umsawli, P.O. Mawdiangdiang,
Shillong - 793012, Meghalaya
2. Dr. Hiambok Jones Syiemlieh, -Member;
Professor,
Department of Geography,
North-Eastern Hill University,
Shillong - 793022, Meghalaya
3. Chief Conservator of Forests, -Member Secretary.
Social Forestry and Environment, Government of
Meghalaya.

2. The Chairman and Members of the Authority, Meghalaya shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Meghalaya shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Meghalaya shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Meghalaya.

5. For the purpose of assisting the Authority, Meghalaya, the Central Government in consultation with the State Government of Meghalaya, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as SEAC, Meghalaya) comprising of the following Members, namely:-

1. Shri Nababrata Bhattacharjee, -Chairman;
"Megharun" Daphne Road,
Kenchs Trace, P.O. Laban,
Shillong - 793004, Meghalaya.

- | | |
|--|-------------|
| 2. Shri Shkhar K. Sangama,
Joint Director, Soil and Water Conservation (Retired),
R.C. Road, Tura,
West Garo Hills -794002, Meghalaya | -Member; |
| 3. Shri Toiler H.S. Bonney,
Indian Forest Service, (Retired),
Sohiong Village (Mawtap),
East Khasi Hills District - 793115, Meghalaya | -Member; |
| 4. Shri Puhran M. Sangma,
H.No. 93/2, Madan Laban, Near Nepali School, Shillong -
793004, Meghalaya | -Member; |
| 5. Dr. Donkumar Syiem,
Professor,
Department of Biochemistry, North Eastern Hill University,
Shillong - 793022, Meghalaya | -Member; |
| 6. Shri Phngain Singh Giri Lyngdoh,
Opposite Khasi National Dorbar Hall,
Mawkhar Main Road,
Shillong - 793001, Meghalaya | -Member; |
| 7. Deputy Conservator of Forests, Office of the Additional
Principal Chief Conservator of Forests (Social Forestry and
Environment), Government of Meghalaya | -Secretary. |

6. The Chairman and Members of SEAC, Meghalaya shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Meghalaya shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Meghalaya shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Meghalaya shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Meghalaya and SEAC, Meghalaya and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority, Meghalaya and SEAC, Meghalaya shall be paid as per the rules of the State Government of Meghalaya.

[F. No. J-11013/9/2007-IA-II(I)]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.